

## अशोक वाजपेयी



अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ई० में दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर, मध्यप्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बी० ए० और सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से अंग्रेजी में एम० ए० किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति, वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं।

अशोक वाजपेयी की लगभग तीन दर्जन मौतिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हैं। 'शहर अब भी संभावना है', 'एक पतंग अनंत में', 'तत्पुरुष', 'कहीं नहीं वही', 'बहुरि अकेला', थोड़ी सी जगह', 'दुख चिट्ठीरसा है' आदि उनके कविता संकलन हैं। 'फिलहाल, 'कुछ पूर्वग्रह', 'समय से बाहर', 'कविता का गल्प', 'कवि कह गया है' आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। - 'तीसरा साक्ष्य', 'साहित्य विनोद', 'कला विनोद', 'कविता का जनपद', मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है जिनमें 'समवेत', 'पहचान', 'पूर्वग्रह', 'बहुवचन', 'कविता एशिया', 'समास' आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्यावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर आवृद्ध आर्डर आवृक्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं।

सर्वक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचनाधर्मिता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके 'आविन्यों' नामक गद्य एवं कविता के सर्वनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सर्वनात्मक गद्य की कुछ रचनाएँ और कविताएँ हैं जिनमें से दोनों विधाओं की दो रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। आविन्यों दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहाँ लेखक ने बीस-एक दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएँ लिखी गईं। इस तरह हिंदू ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबढ़ मानस के सर्वनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्वक जागरूकता और संस्कृतिबोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएँ कैसे रूप-आकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है।

## आविन्यों

लगभग दस बरस पहले पहली बार आविन्यों गया था। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी और अब गर्भियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यन्त प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग-समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहाँ भारत केन्द्र में था। पीटर ल्युक का विवादास्पद 'महाभारत' पहले पहल प्रस्तुत किया जानेवाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। पत्थरों की एक खदान में, आविन्यों से कुछ मिलोमीटर दूर, वह भव्य प्रस्तुति हुई थी: सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा रहा था - कुमार गन्धर्व आए थे और उन्होंने एक आर्कविशय के पुराने आवास के बड़े से आँगन में गाया था। एक बन्दिश भी याद है : दुमदुम लता-लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंगस्थलियों में बदल जाते हैं।

रोन नदी के दूसरी ओर आविन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतन्त्र है। नाम

है वीलनव्व ल आविन्यों- अर्थात् आविन्यों का नया गाँव या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रैंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थसियन सम्प्रदाय का एक ईसाई मठ बना ला शत्रूज। चौदहवीं सदी से फ्रैंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह सम्प्रदाय मौन में विश्वास करता है सो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रूज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और

इसरतों का वापस खरीद कर उनका बहुत सम्प्रेदनशील और मुपर जीणोंडर कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा उत्तर दी सफल कोशिश की गई। उसे एक संस्कृत स्पर्शक बनाए रखकर भी उसमें एक कलाकेन्द्र की स्थापना की गई। यह केन्द्र इन दिनों रामगंग और लेखन से जुड़ा हुआ है। मगरमां, रामसंगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं और मुख्य इंसाइ सन्तों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक क्षमता करने में बिताते हैं। दो-दो उमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं। उसमें फर्नीचर चौदहकीं सदी जैसा है पर मर्विधा आधुनिक रसोईघर और नहानघर हैं। एक अत्यधिक संगीत व्यवस्था भी है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रियाल के चारों ओर दोने गलियारों में खुलते हैं पर भीष्म और यैन भी हैं और पिछवाड़े से एक दस्तब्जा भी। इताह के पांच पिंडों में शाम को सबको एक स्थान पर गत जा रोजन करने की सुविधा है; बाकी दूर दिन का नाश्ता और दोपहर का मोजन अपनी सुविधा में, जहाँ चाहे वहाँ, अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन उचासंक मैलानी यह जगह देखने आते हैं। अन्यथा द्वहद शान्त और नीरव स्थान है।

चौलनव्य एक लोटा सा गाँव है जहाँ एक पुस्तकों-पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रियाल, वहाँ रसतराँ और बार आदि हैं। आविन्यों और आस-पास के अन्य शहरों-कस्बों से बास-व्यवस्था मुश्तम है।

फ्रेंच सरकार के सीजन्स से ला शानूज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्यौता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था। तब नहीं जा पाया था। यों उत्तरित हो एक महीने की थी पर इतना शामय गिकालना लठिन था। सो कुछ उन्नीस दिन वहाँ रहा, 24 अक्टूबर से 10 नवम्बर 1994 की दोपहर तक। अपने साथ हिन्दी का टाइपराइटर, तान-चार पुस्तके और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। रिफ़ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की कोई विवशता न होने वाले जीवन में यह यहला ही अवसर था। इसने निष्ट एकान्त में रहने का



भी कोई अनुभव नहीं था । कुल उन्नीस दिनों में पैंतीस कविताएँ और सत्ताईस गद्य रचनाएँ लिखी गईं ।

आविन्यों फ्रांस का एक प्रमुख कलाकेन्द्र रहा है । पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है 'ल मादमोजेल द आविन्यों' । कभी अति यथार्थवादी कवित्रयी आन्द्रे ब्रेताँ, रेने शॉ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग तीस संयुक्त कविताएँ आविन्यों में साथ रहकर लिखी थीं । ला शत्रूज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था । अचरज मुझे भी कम नहीं है । वे सुन्दर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और रातें थीं: भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुईं । यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है । आविन्यों को, उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई, कविप्रणति भी । हर जगह हम कुछ पाते, बहुत सा गँवाते हैं । ला शत्रूज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है और जो गँवाया उसकी गहरी पीड़ा भी ।

### प्रतीक्षा करते हैं पत्थर

किसी देवता या काल की नहीं  
पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर—  
धीरज से  
रेशा-रेशा झिरते हुए,  
शिरा-शिरा छिलते हुए,  
प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर ।  
मैंह गिरता है, सूखी पत्तियाँ, धूप गिरती है,  
गिरती हैं आवाजें,  
भाँय-भाँय करता रात का बियाबान और अँधेरा—  
अपने अभेद्य हृदय में  
कोई ग्राचीन धुन दृहराते हुए,  
प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर ।  
हरे सपने भूरी पहेलियाँ पीला पड़ता समय  
छोजती भाषा आदिम अँधेरा  
सब धेरता है पत्थरों को—  
पर अपलक बाट अगोरते  
एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर ।  
बिना माथा झुकाये प्रार्थना करते हैं पत्थर,  
बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर,  
बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर ।  
पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर—

## नदी के किनारे भी नदी है

यहाँ पास में ही रोन नदी है। इस तरफ दीलनव्य और दूसरी ओर आविन्यों। अभी नहीं, पर शिल्पे वर्ष हम बहुत देर तक उसके टट पर बैठे थे। अगर जलप्रवाह को एकटक देखते रहे तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है; कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना है। विनोद कुमार शुक्ल अपनी एक कविता में 'नदी-चेहरा लोगों' से मिलने जाने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी-चेहरा नहीं हो जाते, हम जो कभी-कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा-बैठ पाते हैं हम भी कुछ देर के लिए ही सही, नदी-चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती; वह सबको धिंगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं।

नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। उसमें न जाने कहाँ-कहाँ से जल आकर मिलते और चिलीन होते रहते हैं; वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी-कैसी बिम्बमालाएँ, शब्द-भिगमाएँ, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल-रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द-रिक्त नहीं होती। न नदी के किनारे, न ही कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं; अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अधिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरन्तरता, नदी और कविता दोनों में हमारी नश्वरता का अनन्त से अभिषेक करती है।

एक कविता-पौक्षित है; "कैसी तुम नदी हो ?" उत्तर हो सकता है: "जैसी तुम कविता हो !"



## बोध और अभ्यास

### पाठ के साथ

- आविन्यों क्या है और वह कहाँ अवस्थित है ?
- हर बरस आविन्यों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है ?
- लेखक आविन्यों किस सिलसिले में गए थे ? वहाँ उन्होंने क्या देखा-सुना ?
- ला शत्रूज़ क्या है और वह कहाँ अवस्थित है ? आजकल उसका क्या उपयोग होता है ?
- ला शत्रूज़ का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को 'मौन का स्थापत्य' क्यों कहा है ?
- लेखक आविन्यों क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे ? लेखक की उपलब्धि क्या रही ?
- 'प्रतीक्षा करते हैं पत्थर' शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीकरण करता है ?
- आविन्यों के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं ?
- मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विभमता है ?
- इस कविता से आप क्या सीखते हैं ?
- नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है ?
- नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों ?
- नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है ?
- किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों ?

### पाठ के आस-पास

- स्कूल के पुस्तकालय से अशोक बाजपेयी की पुस्तक 'आविन्यों' खोजकर पढ़ें।
- निमाकित व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्र करें -**  
(क) रूपर्ट ब्रूक (ख) पिकासो (ग) आन्द्रे ब्रेताँ (घ) रेने शॉ (ड) पॉल एलुआर (च) कुमार गंधर्व  
3. फ्रांस का मानचित्र उपलब्ध कर रोन नदी और आविन्यों मठ को चिह्नित करें।

### भाषा की बात

- निमाकित के लिंग-निर्णय करते हुए वाक्य बनाएं -**  
खदान, आवास, बन्दिश, इमारत, रंगकर्मी, अवधि, नहानघर, आँगन, आसक्ति, प्रणति

**2. निम्नांकित के समास-विग्रह करते हुए भेद बताएँ -**

यथासंभव, पहले-पहल, लोकप्रिय, रंगकर्मी, पचासेक, कवित्रयी, कविप्रणति, प्रतीक्षारत, अपलक, तदाकार

**3. पाठ से अहिन्दी स्रोत के शब्द एकत्र कीजिए।**

**4. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें -**

रंगकर्मी, कविताएँ, उसकी, सामग्री, अनेक, सुविधा, अवधि, पीड़ा, पत्तियाँ, यह

**शब्द निधि :**

महाकाव्यात्मक : महाकाव्य की तरह व्यापक और गहरा

रंगस्थल : जहाँ नाटक मौचित हो

हुम : पेड़-पौधा

स्थापत्य : वास्तु-रचना, भवन-निर्माण की कला

जीर्णोद्धार : पुराने को नया करना

सुधर : सुंदर

चैम्बर्स : प्रकोष्ठ, कमरे

नीरव : शब्दहीन, ध्वनिहीन

निषट : नंगा, निरा, स्पष्ट

निविड़ : घना, सघन

आसक्ति : गहरा भावात्मक लगाव

दस्तावेज़ : ऐसे कागजात जिनमें किसी वस्तु का सारा विवरण हो

कविप्रणति : कवि का कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम

बिवाबान : निर्जन, सुनसान

बेहदी चौगान : सीमाहीन खुला मैदान

तदाकार : किसी वस्तु के आकार में ढल जाना

अधिभूति : पराजय, अत्यंत प्रभावित होना

नश्वरता : भागुरता, नाशशीलता

